



पुलिस थाना-मिर्जामुराद, जनपद-वाराणसी कमिश्नरेट ।

सी.यू.जी. नं.-9454404394

ई-मेल- so-mirzamurad.va@up.gov.in

प्रेस नोट

मिर्जामुराद की पुलिस टीम द्वारा डीसीएम-407 के अंदर कुल 22 राशि गोवंश बरामद

श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन महोदय वाराणसी कमिश्नरेट व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन वाराणसी कमिश्नरेट के निर्देशन व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब वाराणसी कमिश्नरेट के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, वांछित अभियुक्तों तथा तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार के निर्देशन मे आज दिनांक 06.03.2023 को मै उ0नि0 रविकान्त चौहान मय हमराह उ0नि0 नन्दलाल कुशवाहा मय पैन्थर के कर्मचारीगण का0 धर्मेन्द्र कुमार , का0 रामभवन यादव थाना हाजा से प्रस्थान कर बगरज देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति में साधू की कुटिया पर मौजूद था कुछ ही देर बाद मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि प्रयागराज की ओर से एक डीसीएम 407 जिसका नंबर UP 62 T 3624 का चालक अत्यधिक मात्रा में गोवंश लादकर वध हेतु बिहार लेकर जायेगा यदि जल्दी किया जाय तो व्यक्ति पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर मै उ0नि0 हमराह पुलिस बल को मुखबिरी से अवगत कराते हुए मै उ0नि0 मय हमराह पुलिस बल मय मुखबिर के साधू कुटिया से प्रस्थान कर रखौना रिंग रोड के पास पहुचा कुछ ही देर में एक डीसीएम 407 प्रयागराज की ओर से आता दिखाई दिया मुखबिर दूर से इशारा कर मौके से हट बढ़ गया। हम पुलिस के लोगो द्वारा टार्च की रोशनी के इशारे से रोका गया तो उक्त डीसीएम 407 का चालक वाहन ड्राइवर सीट से कुदकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग गया। डीसीएम के तिरपाल को खोल कर देखा गया तो डीसीएम 407 के अंदर कुल 22 राशि गोवंश लदे है। अग्रेत्तर कार्यवाही जारी है।

अभियुक्त का नाम पता:

चालक नाम पता अज्ञात(फरार)

बरामदगी-

1. 22 राशि गोवंश गाय एवं बैल बरामद हुए जिसमे 08 राशि बैल की मृत्यू हो चुकी है
2. डीसीएम 407 (रजिस्ट्रेशन नं0 UP 62 T 3624, चेचिस नं0 197J21308 व इंजन नं0 JQZ836325)

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक 06.03.2023 समय 01.00 बजे स्थान-रखौना रिंग रोड

सम्बन्धित अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 0052/2023 धारा धारा 3/5 ए /5 बी /8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।

पुलिस टीम का विवरण:

1. श्री दीपक कुमार थानाध्यक्ष थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 रविकान्त चौहान चौकी प्रभारी खजूरी थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 नन्दलाल कुशवाहा थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 रामभवन यादव थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।

फोटो –

थानाध्यक्ष
थाना-मिर्जामुराद
कमिश्नरेट वाराणसी ।